

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १९५] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर ६, १९६९/अग्रहायण १५, १८९१

No. 195] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6, 1969/AGRAHAYANA 15, 1891

इस भाग में भिन्न-७४ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

New Delhi, the 6th December 1969

SUBJECT.—Awards for Public Recognition of outstanding Export Performance.

No. 11(8)/66-EAC.—The following amendment may be made in the Government of India, late Ministry of Commerce Resolution on the above subject, published in part I Section I of the Gazette of India Extraordinary dated November 23, 1968 as amended.

1. In the title and in para 6 of the Resolution, for the Word "Commerce", the words "Foreign Trade" may be substituted.
2. For the existing paragraphs 4 and 5 of the Resolution, the following may be substituted, namely:—
- "4. in addition to the Awards referred to above, Certificates of Merit will be issued for the best exporter in different groups of export products, from amongst registered members of Export Promotion Councils and Commodity Boards, provided that no such Certificates may be issued in the case of any commodity group in any particular year, in the discretion of the Selection Committee.
5. A Selection Committee consisting of the under mentioned will make recommendations for the Awards and Certificates, to the Minister of Foreign Trade:—
1. A judge or retired judge of the Supreme Court or a High Court.
India, Calcutta.
2. The Secretary in the Ministry of Foreign Trade or his nominee.
3. The President, Federation of Indian Export Organisations, New Delhi.

4. The President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, New Delhi.
5. The President, Associated Chambers of Commerce and Industry, of India, Calcutta.
6. Joint Secretary (Export Promotion), Ministry of Foreign Trade.
7. The Director General of Commercial Intelligence and Statistics."

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दसम्बर, 1969

संकल्प

विषय :— उत्कृष्ट निर्यात निष्पादन पर लोक मान्यता हेतु पुरस्कार ।

सं० 11(8)/66—ई० ए० सी० —भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के उपरोक्त विषय पर भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 23 नवम्बर, 1968 यथा संशोधित में प्रकाशित संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए जाए ।

1. संकल्प के शीर्ष में और कण्डिका 6 में "वाणिज्य" शब्द के स्थान पर "विदेशी व्यापार" शब्द रखे जाएं ।

2. संकल्प की विद्यमान कण्डिका ४ तथा ५ के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"4. उपरोक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त निर्यात उत्पादों के विभिन्न वर्गों में प्रवरण समिति की इच्छानुसार निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों के पंजीयित सदस्यों में से सर्वश्रेष्ठ निर्यातकों को श्रेष्ठता प्रमाण पत्र भी दिये जायें, बशर्ते किसी विशिष्ट वर्ष में किसी वस्तु-वर्ग के मामले में ऐसा कोई प्रमाण पत्र न दिया गया हो ।

5. निम्नलिखित व्यक्तियों की प्रवरण समिति पुरस्कारों तथा प्रमाण पत्रों हेतु विदेशी व्यापार मंत्री को सिफारिशें करेगी :—

1. सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधीश ।
2. विदेशी व्यापार मंत्रालय का सचिव अथवा उसका मनोनीत व्यक्ति ।
3. अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन संघ, नई दिल्ली ।
4. अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ, नई दिल्ली ।
5. अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग सहयोगी मंडल, कलकत्ता ।
6. संयुक्त सचिव (निर्यात संवर्धन), विदेशी व्यापार मंत्रालय ।
7. महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी ।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और उसकी एक एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को भेज दी जाये ।

ए० सी० बनर्जी, संयुक्त सचिव ।